

वाणिज्य में स्नातक बी. कॉम(एफ. वाई. यू. पी.)

चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली

बी. सी. ओ. सी. -138:

सत्रीय कार्य
2026-27

जाँच सत्रीय कार्य की अवधि - 1st जुलाई 2026 से 30th जून 2027

षष्ट सत्र



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली -1100 68



वाणिज्य में स्नातक (बी. कॉम)
बी. कॉम(एफ. वाई. यू. पी.)

बी. सी. ओ. सी. -138:

सत्रीय कार्य 2026—27

प्रिय छात्र/छात्राओं,

अंतिम परीक्षा में सत्रीय कार्य के लिए 30% अंक निर्धारित हैं। सत्रांत परीक्षा में बैठने योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि समय सूची के अनुसार आप इस सत्रीय कार्य को पूरा करके भेज दें। सत्रीय कार्य को करने से पहले आपको चाहिए कि कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसे आपके पास अलग से भेजा गया है।

1. वे छात्र जो दिसम्बर 2026 की सत्रांत परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। वे 15 अक्टूबर 2026 तक जमा करवायें।
2. वे छात्र जो जून 2027 के सत्रांत परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें 15 मार्च 2027 तक जमा करवाना होगा।

आपको सभी पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य को अपने अध्ययन केंद्र के समन्वयक को प्रस्तुत करना होगा।

अध्यापक जांच सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम का कोड	:	बी. सी. ओ. सी. -138
पाठ्यक्रम का शीर्षक	:	
सत्रीय कार्य का कोड	:	बी.सी.ओ.सी.-138/टी. एम. ए./ 2025 - 26
खण्डों की संख्या	:	सभी खण्ड

अधिकतम अंक : 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

खण्ड – क (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के हैं)

- क) 'गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है व्याख्या कीजिए।' (10+ 10)

ख) व्यक्ति (individuals) के सम्बन्ध में निम्नलिखित का स्पष्टीकरण कीजिए: i) निवासी ii) मामूली तौर पर निवासी नहीं iii) अनिवासी
- क) वार्षिक मूल्य को परिभाषित कीजिये तथा मकान सम्पत्ति से आय निर्धारित करने के लिये वार्षिक मूल्य से दी जाने वाली कटौतियों का वर्णन कीजिये। (10+ 10)

ख) भारत में आईटीआर की ई-फाइलिंग की प्रक्रिया की व्याख्या करें?
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें: (5 x 4)

क) कृषि आय और अंशतः कृषि आय

ख) धारा 80जी के तहत कटौती।

ग) मकान किराए भत्ते से संबंधित आयकर के प्रावधान

घ) सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण
- श्री नागराज जो ग्रेजुएट भुगतान के अंतर्गत नहीं आते हैं। 25 दिसंबर 2023 को ABC लिमिटेड से 36 वर्ष 9 माह सेवा करने के बाद रिटायर हुए और ग्रेजुएट का रु. 5,00,000 प्राप्त किया उनका वेतन 30 जून 2023 तक रु. 6,000 प्रति माह तथा उसके बाद जुलाई 2023 से रु. 7,000 प्रति माह हो गया उन्हें महंगाई भत्ता भी रु. 1,000 प्रति माह की दर से मिलता था जिसका 70% सेवा की शर्तों के अधीन था कर निर्धारण वर्ष 2024-25 ग्रेजुएट की कर योग्य राशि की गणना कीजिए। (10)
- निम्न सूचना के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के 60 वर्षीय प्रोफेसर श्री X की कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिये कुल आय तथा देय कर की गणना कीजिये। (पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार गणना करें): (10)

विवरण		Rs.
I)	वेतन रु 50,000 प्रति माह 6,00,000	6,00,000
II)	महंगाई भत्ता वेतन का 50 प्रतिशत	3,00,000
III)	अधीक्षक भत्ता रु0 1500 प्रति माह	18,000

IV)	विश्वविद्यालय परीक्षक पारश्रमिक	85,400
V)	कलात्मक प्रकृति की पुस्तकों से अधिकार शुल्क	2,73,000
VI)	ताश के खेल से आय	16,400
vii)	लाटरी जीत की राशि (सकल)	30,000
viii)	लाटरी टिकट पर व्यय	5,000
ix)	बैंक बचत खाते पर ब्याज	17,000
x)	बैंक में सावधि जमा पर ब्याज	1,00,000
xi)	प्रमाणित भविष्य निधि में जमा	1,22,000
xii)	जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान	30,000

6. निम्नलिखित को स्पष्ट करें:

(5 x 4)

क) दिखावटी लेन देन (Bond Washing Trasation)

ख) आईटीआर-1

ग) आयकर अधिनियम की धारा 54 F के अन्तर्गत वर्णित करमुक्त पूँजी लाभ से सम्बन्धित प्रावधान

घ) किराया मुक्त आवास